



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2228]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2012/कार्तिक 15, 1934

No. 2228]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2012/KARTIKA 15, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2680(अ).—केन्द्र सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियमावली, 1952 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद् का गठन करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है; नामतः :—

- |    |                                                                                                                                                                          |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | श्री एम.ए.एम.आर. मुथैया, अध्यक्ष, सीएमए<br>एवं प्रबंध निदेशक,<br>चेट्टीनाड सीमेंट कार्पो. लि.,<br>रानी सीताई हाल बिल्डिंग, 603, अन्ना सलाई,<br>चेन्नई-600006             | अध्यक्ष |
| क. | उपधारा 6 के खंड (क) के तहत नियुक्त सदस्य                                                                                                                                 |         |
| 2. | श्री कुलदीप के. कौरा, प्रबंध निदेशक,<br>एसीसी लिमिटेड, 414-421, स्पेलेंडर फोरम चौथा तल,<br>3, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला, नई दिल्ली-110044                                 | सदस्य   |
| 3. | श्री अजय कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,<br>अंबुजा सीमेंट लि., 248, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,<br>फेज-III, नई दिल्ली-110020                                                 | सदस्य   |
| 4. | श्री एन. श्रीनिवासन, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,<br>द इंडिया सीमेंट लि., कोरोमंडल टावर,<br>93, सन्थोम हाई रोड, करपागम एवेन्यू,<br>राजा अन्नामलाई पुरम,<br>चेन्नई-600028 | सदस्य   |

- |     |                                                                                                                                                                    |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.  | श्री मनोज गौड़, कार्यकारी अध्यक्ष,<br>जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, सेक्टर-128,<br>नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 304                                                     | सदस्य |
| 6.  | श्री एच.एम. बांगड़, प्रबंध निदेशक,<br>श्री सीमेंट लिमिटेड, 21, स्टैंड रोड,<br>कोलकाता - 700 001.                                                                   | सदस्य |
| 7.  | श्री पुनीत डालमिया, प्रबंध निदेशक,<br>डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड,<br>11 वीं और 12 वीं मंजिल, हंसालय बिल्डिंग,<br>15, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110 001.         | सदस्य |
| 8.  | श्री ओ.पी. पूर्णमल्का, पूर्णकालिक निदेशक,<br>अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, अहुरा सेंटर,<br>"बी" विंग, दूसरा तल, महाकाली केव्ज रोड,<br>अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093. | सदस्य |
| 9.  | श्री उदय खन्ना, अध्यक्ष,<br>लाफार्ज इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, बख्तावर, 14वां तल,<br>229, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021                                                 | सदस्य |
| 10. | श्री के.सी.जैन, वरिष्ठ अध्यक्ष,<br>केसोराम एवं वासवदत्ता सीमेंट लिमिटेड,<br>प्रथम तल, 10-3-316/ए,<br>एस.डी. आई होस्पिटल रोड<br>मसाब टैंक, हैदराबाद-500028.         | सदस्य |
| 11. | श्रीमती विनीता सिंघानिया, प्रबंध निदेशक,<br>जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, नेहरू हाउस,<br>4, बहादुर शाह जफर मार्ग,<br>नई दिल्ली -110002.                             | सदस्य |
| 12. | श्री राजेन्द्र चामरिया, उपाध्यक्ष<br>एवं प्रबंध निदेशक,<br>सीमेंट विनिर्माण कंपनी लिमिटेड<br>281, दीपाली, पीतमपुरा<br>नई 110034 दिल्ली                             | सदस्य |
| 13. | श्री बी.आर.नाहर,<br>कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ,<br>बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिरला बिल्डिंग,<br>तीसरा तल, 9/1, आर.एन. मुखर्जी रोड,<br>कोलकाता-700001.               | सदस्य |
| 14. | महासचिव, पदेन,<br>सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन,<br>सीएमए टॉवर, ए-2ई, सेक्टर 24, नोएडा.                                                                            | सदस्य |

- ख. धारा 6 की उपधारा 1 के खंड (ख) के तहत नियुक्त सदस्य
15. महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद,  
(एनसीसीबीएम), 34 केएम स्टोन,  
दिल्ली - मथुरा रोड, (एनएच-2), बल्लभगढ़-121004.
- ग. धारा 6 की उपधारा 1 के खंड (ग) के तहत नियुक्त सदस्य
16. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट और संबद्ध कामगार  
परिसंघ, कांग्रेस हाऊस, मजदूर कार्यालय,  
मुंबई-400004.
17. नामिती, अभ्रक सीमेंट उत्पाद विनिर्माता संघ,  
807, अशोक भवन,  
93, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019.
18. नामिती, उपभोक्ता समन्वय परिषद,  
62, कुतुब व्यू एपार्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली - 110 029.
- घ. धारा 6 की उपधारा 1 के खंड (घ) के तहत नियुक्त सदस्य
19. संयुक्त सचिव (सीमेंट प्रभाग के प्रभारी),  
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 001.
20. कार्यकारी निदेशक, यातायात परिवहन (औं),  
रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
21. नामिती, कोयला विभाग,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001.
22. नामिती, ग्रामीण विकास मंत्रालय,  
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001.
23. नामिती, शहरी विकास एवं  
गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, निर्माण भवन,  
नई दिल्ली.
24. अध्यक्ष या उसके नामिती, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग  
प्राधिकरण, प्लॉट नं जी-5 और जी -6, सेक्टर-10 द्वारका,  
नई दिल्ली - 110 045.
25. निदेशक/उप सचिव  
(सीमेंट प्रभाग के प्रभारी)  
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 001.

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

**ORDER**

New Delhi, the 31st October, 2012

**S.O. 2680(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes a Development Council for Cement Industry and appoints the following persons to be members of the said Council, for a period of two years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

- |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>1. Shri M.A.M.R. Muthiah, President, CMA<br/>         &amp; Managing Director,<br/>         Chettinad Cement Corpn. Ltd.,<br/>         Rani Seethai Hall Building, 603, Anna Salai,<br/>         Chennai-600 006</p> | <p>Chairman</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

**A. Members appointed under clause (a) of sub-section 6.**

- |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>2. Mr. Kuldip K Kaura, Managing Director<br/>         ACC Limited, 414-421, Splendor Forum 4<sup>th</sup> floor,<br/>         3, District Centre, Jasola, New Delhi-110 044</p>                                                                   | <p>Member</p> |
| <p>3. Mr. Ajay Kapur, Chief Executive Officer,<br/>         Ambuja Cements Ltd., 248, Okhla Industrial Estate,<br/>         Phase-III, New Delhi-110020.</p>                                                                                         | <p>Member</p> |
| <p>4. Shri N. Srinivasan, Vice Chairman &amp; Managing<br/>         Director, The India Cements Ltd.,<br/>         Coromandel Towers, 93, Santhome High Road,<br/>         Karpagam Avenue, Raja Annamalai Puram,<br/>         Chennai- 600 028.</p> | <p>Member</p> |
| <p>5. Shri Manoj Gaur, Executive Chairman,<br/>         Jaiprakash Associates Ltd., Sector-128,<br/>         Noida, Uttar Pradesh – 201 304.</p>                                                                                                     | <p>Member</p> |
| <p>6. Shri H. M. Bangur, Managing Director,<br/>         Shree Cement Ltd., 21, Strand Road,<br/>         Kolkata-700 001.</p>                                                                                                                       | <p>Member</p> |
| <p>7. Shri Puneet Dalmia, Managing Director,<br/>         Dalmia Cement (Bharat) Ltd.,<br/>         11<sup>th</sup> &amp; 12<sup>th</sup> Floors, Hansalaya Building,<br/>         15, Barakhamba Road, New Delhi-110 001.</p>                       | <p>Member</p> |

- |     |                                                                                                                                                                                 |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8.  | Shri O. P. Puranmalka, Wholetime Director,<br>Ultra Tech Cement Ltd., Ahura Centre,<br>"B" Wing, 2 <sup>nd</sup> Floor, Mahakali Caves Road,<br>Andheri (East), Mumbai-400 093. | Member |
| 9.  | Shri Uday Khanna, Chairman,<br>Lafarge India (P) Ltd., Bakhtawar, 14 <sup>th</sup> Floor,<br>229, Nariman Point, Mumbai-400 021                                                 | Member |
| 10. | Shri K.C.Jain, Sr. President, Kesoram &<br>Vasavdatta Cement Ltd., 1 <sup>st</sup> Floor, 10-3-316/A,<br>S.D. Eye Hospital Road Masab Tank,<br>Hyderabad-500 028.               | Member |
| 11. | Mrs. Vinita Singhania, Managing Director,<br>JK Lakshmi Cement Ltd., Nehru House,<br>4, Bahadur Shah Zafar Marg,<br>New Delhi-110 002.                                          | Member |
| 12. | Shri Rajendra Chamaria, Vice-President &<br>Managing Director<br>Cement Manufacturing Co. Ltd.<br>281, Deepali, Pitampura<br>New Delhi 110034                                   | Member |
| 13. | Shri B. R. Nahar, Executive Director & CEO,<br>Birla Corporation Ltd., Birla Blding, 3 <sup>rd</sup> Floor,<br>9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700 001.                      | Member |
| 14. | Secretary General, Ex-Officio, Cement Manufacturers'<br>Association, CMA Tower, A-2E, Sector-24, Noida.                                                                         | Member |

**B. Members appointed under clause (b) of sub-section 1 of Section 6.**

15. Director General, National Council for Cement,  
& Building Materials (NCCBM), 34 Km Stone,  
Delhi-Mathura Road, (NH-2), Ballabgarh-121004.

**C. Members appointed under clause (C) of sub Section 1 of Section 6.**

16. President, Indian National Cement & Allied Workers  
Federation, Congress House, Mazdoor Karyalaya  
Mumbai-400 004.
17. Nominee, Asbestos Cement Products Manufacturers  
Association, 807, Ashok Bhawan, 93, Nehru  
Place, New Delhi-110 019.

18. Nominee, Consumer Coordination Council,  
62, Kutab View Apartments, Saheed Jeet Singh  
Marg, New Delhi-110 029.

**D. Members appointed under clause (d) of sub Section 1  
of Section 6.**

19. Joint Secretary (In-charge of Cement Division),  
Department of Industrial Policy & Promotion,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Udyog Bhavan, New Delhi-110 001.
20. Executive Director, Traffic Transportation(s),  
Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi 110 001.
21. Nominee, Department of Coal  
Shastri Bhavan, New Delhi 110 001..
22. Nominee, Ministry of Rural Development,  
Krishi Bhavan, New Delhi-110 001.
23. Nominee, Ministry of Urban Development &  
Poverty Alleviation, Nirman Bhavan, New Delhi.
24. Chairman or his nominee, National Highway  
Authority of India, Plot No. G-5 & G-6, Sector-10  
Dwarka, New Delhi-110 045.
25. Director / Deputy Secretary  
(In-charge of Cement Division),  
Department of Industrial Policy & Promotion,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Udyog Bhavan, New Delhi-110 001.

[F. No. 11(5)/2004-Cement]

TALLEEN KUMAR, Jt. Secy.